

## “मायाधारी अति अना बोला”

मायाधारी अति अना बोला ॥

सबदु न सुणई बहु रोल घचोला ॥

(पृ. ३१३)

इस पंक्ति में केंद्रीय तथ्य है ‘माया’ जिसके विषय में विस्तारपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

प्रचलित विचारधारा के अनुसार केवल रूपए, नकद, सोना, चाँदी आदि को ही ‘माया’ समझा जाता है। यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा कि हमारा यह विचार अधूरा तथा एक पक्षीय है।

माया के कई रंग रूप तथा पहलू हैं -

१ जड़ माया : ‘जड़ माया’ में वह सभी वस्तुएं आती हैं जिनमें ‘चेतना’ (consciousness) का आभाव हो जैसे धरती, मकान, धातू, सोना, चाँदी इत्यादि।

ताजी तुरकी सुइना रूपा कपड़ करे भारा ॥

किस ही नालि न चले नानक झाड़ि झाड़ि पए गवारा ॥.....

दे दे नीव दिवाल उसारी भस मंदर की ढेरी ॥

संचे संचि न देई किस ही अंधु जाणे सभी मेरी ॥

(पृ. १५५)

मुकति माल कनिक लाल हीरा मन रंजन की माइआ ॥ (पृ. ७००)

राजु मालु झूठी सभ माइआ ॥

(पृ. ११५५)

२ चेतन माया : इसके अन्तर्गत वह सभी जीव आते हैं जिनमें चेतना या बुद्धि होती है। जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि। इनकी चेतना भिन्न-भिन्न स्तर की होती है। यह चेतना प्राकृतिक नियम के अनुसार सब जीवों में ‘सीमित’ मात्रा में होती है। परन्तु मनुष्य में यह असीमित होती है।

मनुष्य में यह अत्यंत मात्रा तक विकसित होने की शक्ति रखती है। इसी 'सूक्ष्म चेतना' तथा तीक्ष्ण बुद्धि के कारण मनुष्य मोह-ममता में गलतान रहता है।

पुति कुटंबि ग्रिहि मोहिआ माइ ॥

मनमुरिव अंधा आवै जाइ ॥

(पृ. १६१)

कंचन नारी माहि जीऊ लुभतु है मोह मीठा लाइआ ॥

घर मंदर घोड़े रखुसी मनु अनरसि लाइआ ॥

(पृ. १६७)

पूत मीत माइआ ममता सिउ इह बिधि आपु बंधावै ॥

(पृ. २१९)

मात पिता भाई सुत बनिता ता कै रसि लपटाना ॥

(पृ. ६८५)

माया सुत दारा जगत पिआरा

चोग चुगै नित फासै ॥

(पृ. १११०)

३. अचेतन माया : कई बार अचानक ही ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है जिसमें हमारे चेतन विचारों या कर्मों का कोई हाथ नहीं होता यह हमारे पिछले 'संस्कारों' का परिणाम होता है जो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है।

आधि बिआपि उपाधि रस कबहु न तूटै ताप ॥

(पृ. २९७)

कभी कभी समाज (Society) के गलत करमों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कोष भी भोगने पड़ते हैं।

झड़ झड़ ओहाड़ लहरी बहनि लखेसरी ॥

(पृ. १४१०)

धरती ऊपरि कोटगड़ भुइचाल कंमदे ॥

झरवड़ आए तुरुवरां सरबत हलदे ॥

डबि लगै उजाडि विच सभ घाह जलदे ।

हड़ आए किनि थमिअनि दरिआउ वहदे ॥

(वा. भा. गु. ३५ / २१)

४. विचार रूपी माया : ईश्वर की कृपा के द्वारा दी गई तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग करते हुए मनुष्य कई प्रकार के 'रव्याल' सोचता, विचार करता तथा योजनाएँ बनाता रहता है तथा उनकी पूर्ति के लिए यत्न करता रहता है। वास्तव में मनुष्य अपने विचारों द्वारा ही अपने लिए अच्छी या बुरी दुनिया की रचना करता रहता है तथ स्वयं बनाई 'रव्याली दुनिया' में विचरण करते हुए दुर्ख-सुख भोगता तथा भविष्य के लिए अपना 'भाग्य' या किस्मत बनाता रहता है।

Man is incessantly weaving his own good or bad world around himself by his own thoughts like a silk work and suffers the consequences of his own thoughts and deeds,. Thereby creating his own fate and destiny.

**उरझि रहिओ बिखिआ कै संगा ॥**

**मनहि बिआपत्त अनिक तरंगा ॥**

(पृ ७५८)

**माया ममता पवहि खिआली ॥**

**जगपुरि फासहिंगा जग जाली ॥**

(पृ ९९३)

५. **वासना रूपी माया :** पाँच तत्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हमारे मन की वासनाएँ हैं तथा हम अपने मन के विचारों को इनके रंग में रंग कर ‘वासनामयी दुनिया’ की रचना करते हैं तथा उसका परिणाम भोगते हैं। यह ‘वासनामयी दुनिया’ बड़ी सूक्ष्म तथा दामनिक है, इसमें सारी दुनिया गलतान होकर दुर्वी हो रही है।

**माया जालु पसारिआ शीतरि चोग बणाइ ॥**

**त्रिसना परंखी फासिआ निकसु ना पाए माइ ॥**

(पृ ५०)

**कामु क्रोधु माया महि चीतु ॥**

**झूठ विकारि जागै हितु चीतु ॥**

**पूंजी पाप लोभ की कीतु ॥**

(पृ १५३)

**दूजी माया जगत चितु वासु ॥**

**काम क्रोध अहंकार बिनासु ॥**

(पृ २२३)

**साकत मूड माया के बथिक**

**विचि माया फिरहि फिरदे ॥**

**त्रिसना जलत किरत के बाधे**

**जिउ तेली बलद भवदे ॥**

(पृ ८००)

६. **अहम -रूपी माया :** यह अत्यंग सूक्ष्म, स्थूल, बहुरंगी और विशाल है तथा त्रै-गुणों में ताने-बाने की भाँति परिपूर्ण है।

‘अहम्’ संसार का ‘बीज’ है, यह अहम ही त्रैगुणों में द्वैत का भाव (दूसरा होने का भाव) का मूल कारण है ।

हमारी ज्योति स्वरूप ‘आत्मा’ के चारों ओर अहम् का ‘रव्याली बुलबुला’ बना हुआ है जिस कारण हमारा अहम्‌स्त मन अपनी ज्योति स्वरूप आत्मा को भूल कर अथवा अनजान बन कर, बेपरवाह होकर कर्म करता तथा उनके परिणाम भोगता है ।

माया किसनो आखीऐ किआ माया करम कमाए ॥

दुखि सुखि एहु जीउ बधु है हउमै करम कमाए ॥

(पृ. ६७)

दूजै भाए न सेविआ जाए ॥

हउमै माया महा खिखु खाइ ॥

(पृ. १६१)

हउमै माया सभी खिखु है नित जगि तोटा संसारि ॥

(पृ. ३००)

मन तूं गारबि अटिआ गारबि लदिआ जाहि ॥

माया मोहणी मोहिआ फिर फिर जूनी भवाहि ॥

(पृ. ४४१)

हउ विचि आइआ हउ विचि गइआ ॥

हउ विचि जंमिआ हउ हउ विचि मुआ ॥

हउ विचि दिता हउ विचि लइआ ॥

हउ विचि खटिआ हउ विचि गइआ ॥

हउ विचि सचिआरु कुडिआरु ॥

हउ विचि पाप पुंन वीचारु ॥

हउ विचि नरकि सुरगि अवतार ॥

हउ विचि हसै हउ विचि रोवै ॥

हउ विचि भरीए हउ विचि धोवै ॥

हउ विचि जाती जिनसी खोवै ॥

हउ विचि मूरखु हउ विचि सिआणा ॥

मोरख मुकति की सार न जाणा ॥

हउ विचि माया हउ विचि छाया ॥

हउमै करि करि जंत उपाइआ ॥

(पृ. ४६६)

माया मोह सभ कूड़ है कूड़ो होइ गइआ ॥

हउमै झगड़ा पाइओनुं झगड़े जगु मुइआ ॥

(पृ. ७९०)

हउमै माया मोहणी दूजै लगै जाइ ॥

(पृ. ८५३)

इन विचारों से सिद्ध हुआ कि ‘अहम्’ ही माया का बीज तथा मूल कारण है या स्वरूप है। जिसमें से ‘द्वैत – भाव’ (दूसरा भाव) उत्पन्न हुआ है तथा इसी में सारी त्रैगुणी सृष्टि गलतान होकर सोचती है, विचार करती है तथा कर्म करते हुए परिणाम भोगती है।

७. आध्यात्मिक माया : अहम् तथा द्वैत भाव की निवृत्ति के लिए कई प्रकार के धर्म बनाए जाते हैं, परन्तु जीव धर्मों पर भी अहम् अथवा ‘द्वैत भाव’ का रंग चढ़ा देते हैं। ऐसे अहम् – ग्रस्त धर्म के आधीन हम अनेक प्रकार के कर्म-कांड तथा दर्शनिकता में फँसे रहते हैं।

हउ विचि सचिआरु कूडिआरु ॥

हउ विचि पाप पुंन वीचारु

(पृ. ४६६)

दूसरे शब्दों में हमारे धार्मिक क्रिया – कर्म, कर्म-कांड, पाठ-पूजा, धार्मिक ज्ञान-ध्यान की तह में मूल कारण ‘अहम्’ ही है।

करम कांड बहु करहि आचार ॥

बिन नावै धिगु धिगु अहंकार ॥

(पृ. १६२)

पाठु पडिओ अरु बेदु बीचारिओ निवलि भुअंगम साथे ॥

पंच जना सिउ संगु न छुटकिओ अधिक अहंबुधि बाथे ॥

पिआरे इन बिधि मिलणु न जाइ मै कीए करम अनेका ॥

हारि परिओ सुआमी कै दुआरै दीजै बुधि बिबेका ॥

मोनि भइओ करपाती रहिओ नगन फिरिओ बन माही ॥

तट तीरथ सभ धरती भगिओ दुबिधा छुटकै नाही ॥

मन कामना तीरथ जाइ बसिओ सिरि करवत धराए ॥

मन की मैलु न उतरै इह बिधि जे लरव जतन कराए ॥

कनिक कामिनी हैवर गैवर बहु बिधि दानु दातारा ॥

अंन बसत्र भूमि बहु अरपे नह मिलीऐ हरि दुआरा ॥

पूजा अरचा बंदन डंडउत खटु करमा रतु रहता ॥

हउ हउ करत बंधन महि परिआ नह मिलीऐ इह जुगता ॥

जोग सिधि आसण चउरासीह ए भी करि करि रहिआ ॥

बड़ी आरजा फिरि फिरि जनमै हरि सिउ संगु न गहिआ ॥ (पृ. ६४१)

पारवंड भरम उपाव करि थाके रिद अंतरि माया माया ॥ (पृ ११७८)

मनमुखिव हुकमु न बूझे बपुङी नित हउमै करम कमाइ ॥

वरत नेमु सुच संजमु पूजा पारवंडि भरमु न जाइ ॥

अंतरहु कुसुधु माया मोहि बेधे

जिउ हसती छारु उडाए ॥

(पृ १४२३)

कूर क्रिआ उरझिओ सभ ही जग

श्री भगवान को भेदु न पाइओ ॥

(सवये पा. १०)

उपरोक्त विचारों से सिद्ध हुआ कि शीर्षक “मायाधारी अति अंना बोला” में ‘मायाधारी’ शब्द अहमग्रस्त मन के लिए ही प्रयोग किया गया है ।

ऐसे अहमग्रस्त मन के द्वारा कई प्रकार की रंग बिरंगी ‘सूक्ष्म माया’ में (दूष कर) खचित होकर जीवन द्वैत भाव में बिचरण करता हुआ त्रिगुणों में गलतान रहता है तथा अपने मूल ‘आत्मा’ अथवा ‘परमात्मा’ को पूर्णतया भूल कर ‘अंना बोला’ (अन्धा और बहरा) होकर कर्म करता है ।

माया मोहि हरि चेतै नाही ॥

जमपुरि बधा दुरव सहाही ॥

अंना बोला किछु नदरि न आवै ॥

मनमुख पाप पचावणिआ ॥

(पृ १११)

अंना बोला खुइ उझाड़ि पाइ ॥

मनमुखु अंधा आवै जाइ ॥

(पृ ३१४)

मन, “अन्धा” इसलिए है क्योंकि यह अपने अन्दर प्रज्जवलित “आत्मिक ज्योति” को देरव नहीं सकता ।

पंच दूत मुहहि संसारा ॥

मनमुख अंधे सुधि न सारा ॥

(पृ ११३)

मनमुख अंधे किछु न सूझै ॥

मरणु लिरवाइ आए नहीं बूझै ॥

(पृ ११४)

अंतरि वसतु मूडा बाहरु भाले ॥

मनमुख अंधे फिरहि बेताले ॥

(पृ ११७)

देरवै सुणे न जाणई अंधु जीउ ॥ (पृ ७६०)

अंधे एहि न आखीअनि जिन मुखि लोइण नाहि ॥

अंधे सई नानका खसमहु घुथे जाहि ॥ (पृ ९५४)

नानक हुकमु न बुझई अंधा कहीऐ सोइ ॥ (पृ ९५४)

निकटि सुनउ अरु पेरवउ नाही ॥

भरनि भरनि दुरव भरीआ ॥ (पृ १२०९)

“बोला” अथवा ‘सबद न सुणई’- मन को बोला (बहरा) इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अन्तर-आत्मा में लगातार बज रही “अनहद धुन” को सुन नहीं सकता ।

‘सुनना’ हम शारीरिक कानों का कर्म ही समझते हैं परन्तु गुरबाणी अनुसार ‘सुनना’ सुरती को “नौ गोलकों” अर्थात् इन्द्रियों से ऊपर उठा कर अनुभव द्वारा सम्भव हो सकता है ।

अन्तर-आत्मा में इस इलाही धुन को सुनने के लिए “अनुभव”, साथ संगत में सिमरन द्वारा ही खुल सकता है ।

नऊ दरवाजे दसवै मुकता अनहद सबदु वजावणिआ ॥ (पृ ११०)

मूर्दि लीए दरवाजे ॥

बाजीअले अनहद बाजे ॥ (पृ ६५६)

इस लेरव की मुख्य पंकित “मायाधारी अति अंना बोला” में मायाधारी शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण तथा गूढ़ भेद वाला है। साधारणतः लोग ‘माया’ को केवल धन या सम्पत्ति ही समझते हैं । इनके विचार अनुसार ‘मायाधारी’ केवल ‘धनियों’ को ही कहा जाता है । इसलिए जब ‘मायाधारी अति अंना बोला’ की यह पंकित सुनते या पढ़ते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि यह पंकित हम पर तो लागू नहीं होती क्योंकि हम तो ‘धनी’ नहीं हैं । यह तो केवल धनी व्यक्तियों के लिए ही उच्चारित की गई होगी । हमारा ऐसा विचार या विश्वास हमारी मानसिक अज्ञानता का सूचक है । विश्वास के कारण हम गुरबाणी की इन पंकितयों का गलत अर्थ निकालते हैं तथा अपने आप से धोखा करते हैं ।

यदि केवल धनियों को ही मायाधारी कहा गया होता तो वह “अति अंना बोला” नहीं हो सकते क्योंकि वह बड़े सियाने और चतुर होते हैं जिसके आधार पर वह माया अर्जित करते हैं तथा ‘धनी’ बनते हैं ।

लाहा माया कारने दह दिसि ढूढ़न जाइ ॥ (पृ २६९)

माया कारणि करै उपाऊ (पृ ११५१)

भूपति राजे रंग राइ संचहि बिखु माइआ ॥  
करि करि हेतु वधाइदे परदरबु चुराइआ ॥ (पृ १२४५)

माया कारनि श्रम अति करै ॥  
सो माया लै गाढै धरै ॥  
अति संचे समझै नही मूड़  
थनू धरती तनु होए गइओ धूड़ि ॥ (पृ १२५२)

जिस प्रकार 'प्रकाश की अनुपस्थिति' ही 'अंधकार है-उसी प्रकार ईश्वर की 'उपस्थिति' को भूलने से ही 'माया' का अंधकार प्रकट होता है ।

जा तिसु भाणा ता जामिआ परवारि भला भाइआ ॥  
लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमरु वरताइआ ॥ (पृ ९२१)

इसका तात्पर्य है कि जीव के जन्म लेते ही 'माया का भूत' उसे आ चिपकता है ।

दूसरे शब्दों में ईश्वर के अस्तित्व को भूलने से ही 'अहम्' की उत्पत्ति होती है तथा जीव मैं-मेरी के द्वैत भाव में विचरण करता है ।

या जुग महि एकहि कउ आइआ ॥  
जनमत मोहिओ मोहनी माया ॥ (पृ २५१)

मात गरभ दुरव सागरो पिआरे तह अपणा नामु जपाइआ ॥  
बाहरि काढि बिखु पसरीआ पिआरे  
माया मोहु बधाइआ ॥ (पृ ६४०)

माया नामु गरभ जोनि का जिह तजि दरसनु पावउ ॥ (पृ ६९३)  
कहि कबीर जिसु उद्दु तिसु माया ॥ (पृ ११६०)

गुरबाणी में माया का स्वरूप इस प्रकार दर्शाया गया है -

बाबा माया रचना धोहु ॥  
अंधे नामु विसारिआ ना तिसु एह न ओहु ॥ (पृ १५)  
माया मोहि विसारिआ जगत पिता प्रतिपालि ॥ (पृ ३०)

- जिनी रामो राम नामु विसारिआ से मनमुख भूँ अभागी राम ॥  
 तिन अंतरे मोहु विआपै खिनु खिनु माया लागी राम ॥  
 माया मलु लागी भूँ भए अभागी  
 जिन रामनामु नह भाया ॥ (पृ. ४४३)
- राम नामु का सिमरनु छोडिआ माया हाथि बिकाना ॥ (पृ. ६८४)
- इन माया जगदीस गुसाई तुम्हरे चरन बिसारे ॥ (पृ. ८५७)
- एह माया जितु हरि विसरै मोहु उपजै  
 भाउ दूजा लाइआ ॥ (पृ. ९२१)
- प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है तभी उसे माया का 'भ्रम' चिपक जाता है  
 तथा जीव उस भ्रममयी जाल में जीवनभर फँसा रहता है और पलच पलच कर मर  
 जाता है ।
- माया होइ नागनी जगति रही लपटाइ ॥  
 इस की सेवा जो करे तिस ही कउ फिरि खाइ ॥ (पृ. ५१०)
- हउमै ममता मोहणी मनमुखा नो गई खाइ ॥  
 जो मोहि दूजै चितु लाइदे तिना विआपि रही लपटाइ ॥ (पृ. ५१३)
- माया मोहि हरि सिउ चितु न लागै ॥  
 दूजै भाए घणा दुखु आगै ॥  
 मनमुख भरमि भुले भेरवधारी अंतकालि पछुताता हे ॥ (पृ. १०५२)
- त्रिबिधि माया रही बिआपि ॥  
 जो लपटानो तिसु दूख संताप ॥ (पृ. ११४५)
- बिनु करमा सभ भरमि भुलाई ॥  
 माया मोहि बहुत दुखु पाई ॥  
 मनमुख अंधे ठउर न पाई ॥  
 बिसटा का कीड़ा बिसटा माहि समाई ॥ (पृ. ११७५)
- एह त्रिगुण माया जिनि जगतु भुलाया ॥  
 जनम मरण का सहसा ॥ (पृ. १२५७)
- माया पटल पटल है भारी  
 घरु घूमनि घेरि घुलावैगो ॥ (पृ. १३०८)

दूसरे शब्दों में हमारा –

शरीर

मन

चित्

बुद्धि

सोच-विचार

चाच

द्रुव

सुख

खुशी

गमी

चतुर्दश

ज्ञान ध्यान

फिलासफी

काम

क्रोध

लोभ

मोह

प्रेम

गिले-शिकवे

ईर्ष्या द्रेष

वैर विरोध

रव्याल

निश्चय

श्रद्धा भावना

कर्म-धर्म

जप-तप

दान-पूण्य

जनस्म मरण

स्वर्ण-नरक

आदि प्रत्येक रव्याल अथवा भावना में ‘अहम् ग्रस्त माया’ अनेक प्रकार की रंग बिरंगी झाँकियां प्रस्तुत करती है ।

बहु रंग माया बहुत बिधि पेरवी ॥

(पृ. १७९)

माया बिआपत बहु परकारी ॥

(पृ. १८२)

मोहनी महा बचित्रि चंचलि अनिक भाव दिखावए ॥ (पृ ८४७)

बहु बिधि माया मोह हिरानो ॥ (पृ १२६९)

माया ममता है बहु रंगी ॥ (पृ १३४२)

इस ‘अहम्‌स्त माया’ का अहसास (consciousness) कई जन्मों से हमारे अपने अभ्यास द्वारा हमारे अन्त-करण में धस, बस, रस कर दृढ़ हो चुका है तथा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है या दूसरे शब्दों में ‘माया’ ही हमारा ‘जीवन रूप’ बन चुकी है ।

यह जीवन रूप मायिकी रंगत हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष में अनजाने ही अवश्य प्रकट होती रहती है तथा अनेक रंग-बिरंगी झलकें दिखाती है ।

उदाहरणस्वरूप-

मेरा शरीर

मेरा परिवार

मेरी सम्पत्ति

मेरी चतुराई

मेरी कामना

आदि के द्वारा हमारे विचारों, बातचीत, क्रियाओं, भावनाओं में ‘मैं’ अथवा ‘मेरी’ का अहसास हमारे मन के ताने-बाने में ओत-प्रोत एवं परिपूर्ण है तथा ‘अवश्य’ ही (अपने आप) प्रकट होता रहता है । इस मैं-मेरी की भावना के बिना हमारे जीवन की कोई बात पूरी ही नहीं होती ।

पुत्र कलनु उरझिआ जानि मेरी ॥ (पृ १७९)

मेरी मेरी करि करि दूबे खपि खपि मुए गवारा ॥ (पृ ३८०)

माया मोहु अंधु अंधारा ॥

हउमै मेरा पसरिआ पासारा ॥

अनदिनु जलत रहै दिनु राती

गुर बिनु सांति न होई है ॥ (पृ १०४५)

माया मोहु दुखु सागरु है बिखु दुतरु तरिआ न जाइ ॥

मेरा मेरा करदे पचि मुए हउमै करत बिहाए ॥ (पृ १४१६)

यह सारा संसार ही अहम् के भ्रम भुलाव में से उत्पन्न हुआ है तथा इस झूठे “भ्रम भुलाव” की ‘माया’ में लथ-पथ हो कर पलघ-पलघ कर खव्वार हो रहा है ।

अंतरि अलखु न जाई लखिआ विचि पड़दा हउमै पाई ॥  
माया मोहि सभो जगु सोया  
इहु भरमु कहु किउ जाई ॥

(पृ २०५)

दूसरे शब्दों में सारा संसार “अममयी माया” का ही -

प्रतिबिम्ब

प्रकाश

## प्रवृत्ति

व्यवहार

बोल बाला

विस्तार

फैलाव

## वड खेल तमाशा (विराट नाटक) है

जिस प्रकार प्रकाश की अनुपस्थिति को ही 'अंधकार' कहा जाता है। प्रकाश के प्रकट होते ही 'अंधकार' स्वयं ही अलोप हो जाता है उसी प्रकार ईश्वर के 'नाम' के आत्मिक प्रकाश की अनुपस्थिति अथवा उसकी 'भूल' को ही 'माया' कहा जाता है।

हरि साजन् पुरखु विसारि कै लगी माया धोह ॥

(पं १३३)

**हउमै नावै नालि विरोध है**

दइ न वसहि इक ठाइ ॥

(पृ. ५६०)

नाम विसारि मनि तनि दख्ख पाया ॥

माया॑ मोह सभू॒ रोगृ॑ कमाया॑ ॥

(पृ. १०६४)

निरभुत नाम विसारिआ नालि माया रचा ॥

३  
तक तक द्वै ती महामा ३

(पं १०९९)

**ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ॥**

जना नामु विसारजा कूड़ लालाघ लाग  
अंग साता मोरापि अंति विसाता अपि ॥

(π 9×93)

इस ‘मायिकी अज्ञानता’ के भ्रम में जीव को अपने मूल “ज्योति स्वरूप” आस्तित्व का ज्ञान नहीं होता-जिस कारण वह अपनी ‘आत्मिक विरासत’ से “अति अनां बोला” अर्थात् अनभिज्ञ रहता है। इस प्रकार अकालपुरुष के अस्तित्व को ‘भूल’ कर छूठी माया के अंधकार में अमीर, गरीब, चतर, ज्ञानी, दार्शनिक, भद्र पूरुष आदि जीवन भी शारीरिक रूप में

“अन्धे-बहरे” व्यक्तियों की भाँति पलच-पलच कर कर्म करते तथा दुरवी होते रहते हैं ।

माया मोहि इहु जगु सुता ॥  
नामु विसारि अंत विगुता ॥

(पृ ११२)

माया मोहु जगतु सबाया ॥  
त्रैगुण दीसहि मोह माया ॥ .....  
देवी देवा मूलु है माया ॥  
सिंमित सासत जिनि उपाया ॥  
कामु क्रोधु पसरिआ संसारे ॥  
आइ जाइ दुखु पावणीआ ॥

अंतरि अलखु न जाई लरिवआ विचि पड़दा हउमै पाई ॥ (पृ १२९)

माया मोहि सभो जगु सोया  
इहु भरमु कहहु किउ जाई ॥

(पृ २०५)

यह सारा ‘खेल’ त्रिगुणों से ऊपर चौथे पद का अनुभवी खेल है जिसे हमारी अल्प बुद्धि की चतुराईयां, युक्तियां, योजनाएँ, ज्ञान, दार्शनिकता न तो समझ सकती है न ही अनुभव कर सकती है ।

इसलिए सभी ‘मायाधारी’ अथवा माया की अज्ञानता में फंसे हुए जीव  
आत्मिक मंडल की अनहद धुन से “बोले” (बहरे) तथा  
इलाही मंडल के आश्चर्यजनक चमत्कार देखने से “अंने”  
(अंधे) हैं ।

माया मोहि हरि चेतै नाही ॥  
जमपुरि बधा दुख सहाही ॥  
अंना बोला किछु नदरि न आवै  
मनमुख पापि पचावणिआ ॥

(पृ १११)

सबदु न जाणहि से अने बोले से कित आए संसारा ॥  
हरि रसु न पाया बिरथा जनमु गवाया जंमहि वारो वारा ॥  
बिसटा के कीड़े बिसटा माहि समाणे  
मनमुख मुगथ गुबारा ॥

(पृ ६०१)

पेरवत चारवत कहीअत अंधा सुनीअत सुनीऐ नाही ॥  
निकटि वसतु कउ जाणै दूरे पापी पाप कमाही ॥ (पृ ७४१)

सिंगित सासत अंतु न जाणै  
मूरखु अंधा ततु न पछाणै ॥

(पृ १०६१)

अगिआनी अंधे दूजै लागे ॥  
बिनु पाणी हुबि मूए अभागे ॥

(पृ १०६३)

“बहु रोल घचोला” की पंक्ति से और भी स्पष्ट होता है कि गुरुबाणी में  
कितनी सख्ती से ताड़ना की गई है ।

जब हमारी बिरती इलाही ‘एक’ में टिकी हो अर्थात् ईश्वर से जुड़ी हो  
तो “शब्द-सूरति-समाधि” में हमारी आत्मा किसी इलाही रंग-रस-चाव तथा  
प्रेम स्वैपना में अलगस्त मतवारी, भाव विभोर हो रही होती है ।

एकसु चरणी जे चितु लावहि लबि लोभि की धावसिता ॥ (पृ १५६)

सुन्न समाधि अनहत तह नाद ॥  
कहनु न जाई अचरज बिसमाद ॥ (पृ २९३)

एको चेतै मनूआ ना डोलै धावतु वरजि रहावै ॥  
सहजे माता सदा रंगि राता साचे के गुण गावै ॥ (पृ ६३४)

विसम भई पेरिव बिसमादी पूरि रहे किरपावत ॥  
पीओ अक्षित नामु अमोलक  
जिउ चारिव गूंगा मुसकावत ॥ (पृ १२०५)

एक सबदि राचै सचि समाइ ॥ (पृ १२७५)

इसके ‘विपरीत’ जब हमारे अहम्गस्त मन पर अनेक प्रकार की मायिकी  
परत चढ़ी हो तो यह मन आत्मिक ज्योति स्वरूप ‘प्रकाश’ से वंचित होकर  
‘माया’ के अंधकार में विचरण करता है । आत्मिक ‘अनुभवी ज्ञान’ से  
‘अना-बोला’ (अंधा-बहरा) होकर यह माया के अंधकार में अहम् के  
आधार पर ही सोचता, कर्म करता तथा “झूठे धंधे मोह” में पलच-पलच कर  
दुख कलेश भोगता है तथा जन्म-मरण के अटूट चक्र में फंसा रहता है ।

त्रै गुण विरिविआ अंधे है माया मोह गुबार ॥  
लोभी अन कउ सेवदे पड़ि वेदा करै पुकार ॥  
बिरिविआ अंदरि पचि मुए ना उरवारु न पारु ॥ (पृ ३०)

माया मोह गुबारु है तिस दा न दिसै उरवारु न पारु  
मनमुख अगिआनी महा दुख पायदे  
झूँबे हरिनामु विसारि ॥ (पृ ८९)

माया माया के जो अधिकाई विचि माया पचै पचीजै ॥

अगिआनु अंथेरु महा पंथु बिखड़ा

अहंकारि भारि लदि लीजै ॥

(पृ १३२६)

यदि गौर से विचार करें तो पता चलेगा कि हमारा 'मन' पारे की भाँति एक क्षण भी टिक नहीं सकता । हर क्षण यह मायिकी 'द्वैत भाव' के असर के आधीन-लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि की वासनाओं द्वारा प्रेरित होकर फिकर, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष में गलतान रहता है तथा कर्म करता है । जब काम-काज से फर्सत पा कर सोता है तो नींद में भी उसे स्वप्न चैन नहीं लेने देते क्योंकि इसमें पांचों द्वारा रचित अनेक प्रकार की वासनाओं की हलचल 'भडथू' या कोलाहल मचा रहता है ।

माया विचि सहजु न ऊपजै माया दूजै भाइ ॥

(पृ ६८)

अहिनिसि मगनु रहै माया मै ॥

कहु कैसे गुन गावै ॥

(पृ २१९)

कबहू जीआड़ा ऊभि घड़तु है कबहु जाइ पझआले ॥

लोभी जीआड़ा थिरु न रहतु है चारे कुंडा भाले ॥

(पृ ८७६)

दिसंतर भवै अंतरु नहीं भाले ॥

माया मोहि वधा जमकाले ॥

(पृ १०६०)

माया मोहु बहुत चितवदे बहुत आसा लोभु विकार ॥

मनमुखि असाथेरु न थीऐ

मरि बिनसि जाइ रिवन बार ॥

(पृ १४१७)

इस 'शोर-गुल' के कारण हमारा मन अन्तरसुरवी दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मिक ज्योति के 'दर्शन' नहीं कर सकता तथा 'अनहद तत् शब्द' की 'धुन' सुनने में असमर्थ रहता है । इस प्रकार विरासत में प्राप्त आत्मिक शान्ति, रंग रस, चाव, प्रेम स्वैपना से वंचित रहता है । दुरव की बात है कि हम गुरबाणी के तीक्ष्ण, ताड़नामयी उपदेश पढ़, सुन, गा कर भी 'माया' के रंग में गलतान हो कर अज्ञानता में फंसे हुए हैं तथा गुरमति से अनजान, बेपरवाह तथा ढीठ हो कर अपना अमूल्य जन्म माया के झूठे चमत्कारों में व्यर्थ गवा रहे हैं ।

माया मोहु मेरे प्रभि कीना आपे भरमि भुलाए ॥

मनमुखि करम करहि नहीं बूझहि बिरथा जमनु गवाए (पृ ६७)

मायाधारी जीवों के विचार, आवश्यकताएं, इच्छाएं, निश्चय भिन्न भिन्न होने के कारण उनमें आपस में गिले-शिकवे, ईर्ष्या-द्वेष, वैर-विरोध आदि की शावनाएं होनी अनिवार्य हैं ।

जिस कारण उनके मन में खींचतान, शोर-गुल अथवा द्वैत – भाव की हलचल भयी रहती है। ऐसे मायिकी मन के शोर-गुल में अथवा विचारों की हलचल में न तो शब्द की ‘धून’ सुनी जा सकती है तथा न ही अन्तर आत्मा में इलाही ज्योति के दर्शन हो सकते हैं।

तभी गुरबाणी हमें यह उपदेश देती है-

कहु नानक जिनि धूरि संत पाई ॥  
ता कै निकटि न आवै माई ॥

(पृ १८२)

थिरु घरि बैसहु हरि जन पिआरे ॥  
सतिगुरि तुमरे काज सवारे ॥

(पृ २०१)

जा कउ रे किरपा करै जीवत सोई मरै ॥  
साथ संगि माया तरै ॥

(पृ २१३)

नानक माया का दुखु तदे चूकै  
जा गुरसबदी चितु लाए ॥

(पृ २४६)

करि किरपा सतसंगि मिलाए ॥  
नानक ता कै निकटि न माए ॥

(पृ २५१)

धधा धावत तउ मिटै संत संगि होइ बासु ॥

(पृ २५७)

सेरवा चउचकिआ चउवाइआ एहु मनु इकत घरि आणि ॥

एहड़ तेहड़ छडि तू गुर का सबदु पछाणु (पृ ६४६)

माया मोह भरमु भउ काटै संत सरणि जो आवै ॥ (पृ ७४८)

बिसराम पाए मिलि साथ संगि  
ताते बहुड़ि न धाउ ॥

(पृ ८१८)

ओट गही जगत पित सरणाइआ ॥  
भै भइआनक जमदूत दुतर है माया ॥  
होहु क्रिपाल इछा करि राखवह  
साथ संतन कै संगि संगा ॥

(पृ १०८३)

करि किरपा मेलहु संत संगति  
तूटि गई माया जमजाली ॥

(पृ ११३४)

